

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1207

दिनांक 29.7.2003/7 श्रावण, 1925(शक) को उत्तर के लिए
हिन्दी सलाहकार समिति
प्रश्न

1207. श्री राजो सिंह:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कितने मंत्रालय/विभाग हैं जहां हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है और ऐसे कितने मंत्रालय/विभाग हैं जहां इसका गठन नहीं किया गया है ;

(ख) ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तीन महीनों पर हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें बुलाई हैं ;

(ग) ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग हैं जिन्होंने इसके गठन के बावजूद इसकी बैठकें नहीं बुलाई हैं

(घ) इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ.) सरकार द्वारा उन मंत्रालयों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानंद)

(क) दिनांक 23.07.2003 तक की स्थिति के अनुसार 33 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियाँ गठित हैं । इसके अतिरिक्त 13 मंत्रालयों/विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समितियों का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है । 4 मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन नहीं हो पाया है ।

(ख) वर्ष 2000, 2001 व 2002 में प्रति तिमाही एक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने वाला कोई मंत्रालय/विभाग नहीं है ।

(ग) 1. परमाणु ऊर्जा विभाग + अंतरिक्ष विभाग

2. डाक विभाग
3. विदेश मंत्रालय
4. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

(घ) तथा (ड.) जिन मंत्रालयों/विभागों के हिंदी सलाहकार समिति गठित/पुर्नगठित नहीं है या हिंदी सलाहकार समितियां गठित होते हुए भी नियमित रूप से बैठके आयोजित नहीं हो रही है उनको समय समय पर विभिन्न स्तरों पर गठन/पुर्नगठन का कार्य शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करवाने/नियमित रूप से बैठके आयोजित करवाने के बारे में अनुरोध किया गया है ।